

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216528
SG-DL-E-03032020-216528

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/फाल्गुन 12, 1941	[रा.रा.क्षे.दि.सं. 397
No. 37]	DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941	[N.C.T.D. No. 397

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2020

फा. सं. 226/नियम/डी.एच.सी.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उपधारा (1) सह-पठित धारा 2 (ड)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम, 2006, जो कि अधिसूचना संख्या 180/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 11.08.2006 द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV सं. 131 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 109) दिनांक 11.08.2006 में अधिसूचित, अधिसूचना संख्या 117/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 08.05.2007 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV सं. 80 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 30) में दिनांक 08.05.2007 को प्रकाशित, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 225/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 29.10.2007 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV संख्या 185 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 206) दिनांक 29.10.2007 में प्रकाशित व शुद्धिपत्र सं. 117/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 31.01.2008 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV सं. 19 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 301) में दिनांक 31.01.2008 को प्रकाशित, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 46/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 22.01.2009 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV संख्या 12 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 303) में दिनांक 22.01.2009 को प्रकाशित, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 178/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 13.05.2010 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV संख्या 77 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 41) में दिनांक 13.05.2010 को प्रकाशित, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 456/नियम/ डी.एच.सी.

दिनांक 11.09.2014 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV संख्या 118 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 96) में दिनांक 11.09.2014 को प्रकाशित तथा तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 81/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 16.02.2016 द्वारा संशोधित व दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV संख्या 27 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 208) में दिनांक 16.02.2016 को प्रकाशित हुए, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

- I. नियम 3(क) से पूर्व दर्शाया गया स्पष्टीकरण नियम 3 के अंत में पढ़ा जाएगा।
- II. वर्तमान नियम 3(क) में, शब्दों “महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय के पक्ष में, नकद, भारतीय पोस्टल आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर द्वारा” को शब्द “आवेदन शुल्क” के बाद व शब्द “नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति को” से पूर्व जोड़ा जाएगा।
- III. वर्तमान नियम 3(क) के तुरंत बाद, निम्नलिखित परंतुक को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :-
“बशर्ते कि कोई आवेदन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वह प्रारूप ‘क’ में नहीं है।”
- IV. नियम 4 का उप नियम (i) हटाया जाता है।
- V. नियम 5 के उप नियम (ख) तथा (ग) को हटाया जाता है।
- VI. वर्तमान नियम 6 के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाता है :-
“6. प्रदान की जाने वाली सूचना तथा अभिलेख तक पहुँच, अभिलेखों के नष्टीकरण से सम्बंधित समय-समय पर लागू होने वाले नियमों/निर्देशों के अध्यक्षीन होगी जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अधिसूचित अथवा लागू किया जा चुका हो।”
- VII. नियमों के साथ दिए गए वर्तमान प्रारूप ‘क’ के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“प्रारूप क

सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप
(नियम 3 देखें)

डा.सं.

(कार्यालयी प्रयोग हेतु)

सेवा में,

ज.सू.अ./स.ज.सू.अ./लेखा अधिकारी,

दिल्ली उच्च न्यायालय,

शेरशाह मार्ग,

नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम : ...
2. पता : ...
3. सूचना का ब्यौरा :
(क) सम्बंधित विभाग :
(ख) माँगी गई सूचना का ब्यौरा :
(i) माँगी गई सूचना का विवरण :
(ii) माँगी गयी सूचना की अवधि :
(iii) अन्य विवरण :

4. मैं कथन करता हूँ कि माँगी गई सूचना अधिनियम की धारा 8 में दी गयी परिसीमाओं में नहीं आती है तथा जहाँ तक मुझे ज्ञान है यह आपके विभाग से सम्बंधित है।
5. शुल्क के रूप में रु. प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में सं. दिनांक द्वारा जमा करा दिए गए हैं।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

ई-मेल पता, यदि कोई हो,

टेलीफोन नं. (कार्यालय) :

(आवास) :

नोट: (1) प्रारूप 'क' को भरने में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथोचित सहायता प्रदान की जा सकती है।

(2) कृपया सुनिश्चित करें कि प्रारूप 'क' पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और माँगी गयी सूचना के व्यौरे में किसी प्रकार की अस्पष्टता न हो।

नोट : यह संशोधन इनके राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2020

F. No. 226/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 2 (e) (iii) of the Right to Information Act, 2005, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Delhi hereby makes the following amendment in Delhi High Court (Right to Information) Rules, 2006, which were notified vide Notification No.180/Rules/DHC dated 11th August, 2006, in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No.131 (N.C.T.D. No. 109) dated 11th August, 2006, amended vide Notification No.117/Rules/DHC dated 8.5.2007 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 80 (N.C.T.D. No. 30) dated 8.5.2007, further amended vide Notification No.225/Rules/DHC dated 29.10.2007 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 185 (N.C.T.D. No. 206) dated 29.10.2007 and corrected vide Corrigendum No. 117/Rules/DHC dated 31.1.2008 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 19 (N.C.T.D. No. 301) dated 31.1.2008, further amended vide Notification No.46/Rules/DHC dated 22.1.2009 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 12 (N.C.T.D. No. 303) dated 22.1.2009, further amended vide Notification No. 178/Rules/DHC dated 13.05.2010 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 77 (N.C.T.D. No. 41) dated 13.05.2010, further amended vide Notification No. 456/Rules/DHC dated 11.09.2014 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 118 (N.C.T.D. No. 96) dated 11.09.2014 and further amended vide Notification No. 81/Rules/DHC dated 16.02.2016 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 27 (N.C.T.D. No. 208) dated 16.02.2016 :-

AMENDMENTS

- I. The Explanation shown before Rule 3(a) shall be read at the end of Rule 3.
- II. In the existing Rule 3(a), the words **“in favour of the Registrar General, High Court of Delhi by way of cash, Indian Postal Order, Demand Draft, Pay Order”** shall be added after the words “application fee” and before the words “as per Rule 10 with the authorized person”.
- III. The following proviso shall be added immediately after the existing Rule 3(a), in the following manner :-
“Provided that no application shall be rejected only on the ground that it is not in Form A.”
- IV. Sub-rule (i) of Rule 4 stands deleted.
- V. Sub-rules (b) and (c) of Rule 5 stand deleted.

VI. The following shall be substituted for the existing Rule 6 :-

“6. Information which is to be furnished and access to records shall be subject to the rules/regulations pertaining to destruction of records in force from time to time which may have been notified or implemented by this Court.”

VII. The following shall be substituted for the existing FORM A attached with Rules :-

“FORM A

Form of application for seeking information

(See Rule 3)

D.No.

(for official use)

To

**The PIO/APIO/Accounts Officer,
Delhi High Court
Sher Shah Road
New Delhi**

- 1. Name of the applicant :**
- 2. Address**
- 3. Particulars of information :**
 - (a) Department Concerned :**
 - (b) Particulars of information required :**
 - (i) Details of information required :**
 - (ii) Period for which information asked for :**
 - (iii) Other details :**
- 4. I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 8 of the Act and to the best of my knowledge it pertains to your office.**
- 5. A fee of Rs..... has been deposited in the office of the authorized person vide No..... dated**

Place

Date

Signature of Applicant,

E-mail address, if any,

Telephone No. (Office):

(Residence):

Note : (1) Reasonable assistance can be provided by authorized person in filling of the FORM-A

(2) Please ensure that the FORM-A is complete in all respect and there is not ambiguity in providing the details of information required.”

NOTE: These amendments shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

By Order of the Court
MANOJ JAIN, Registrar General